

ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर इंदौर में नकली ऑयल की बिक्री, एसटीएफ ने तीन को पकड़ा

21 Jun 2021, 1:55PM ISTViews: 1690

इंदौर

एसटीएफ इंदौर की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली इंजन ऑयल बनाकर बेचने वाले तीन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 लाख 50 हजार रुपये का ऑयल, रैपर, बॉक्स बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है ताकि गिरोह के अन्य साथियों के बारे में पता चल सके। दरअसल, लगातार नामी कंपनियों के नाम से नकली ऑयल बाजार में बिकने की शिकायतें इंदौर एसटीएफ को मिल रही थीं।

[गृह मंत्री जी, ये है आपके जिले का हाल, डर के मारे खुलेआम फायरिंग की शिकायत भी नहीं करते लोग!](#)

एसटीएफ इंदौर इकाई के एसपी मनीष खत्री को कैस्ट्रोल ऑयल के प्रतिनिधि ने शिकायत की थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने सबसे पहले सिमरोल में मोदी ऑटो पार्ट्स पर छापा मारा और दुकानदार आशीष पिता दादूलाल मोदी को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया की वो नौलखा स्थित शुभम ट्रेडर्स से सस्ते दामों पर नकली ऑयल खरीद कर लाता है। पुलिस ने दुकान संचालक आशीष पिता लक्ष्मीचंद मालानी निवासी पीस पाइंट कॉलोनी लिंबोदी को पकड़ा।

[अनुश्री की पेंटिंग देख नहीं हटेंगी नजरें, आर्थिक तंगी की वजह से जमीन पर बैठकर उकेर रही 'भविष्य'](#)

आशीष ने बताया कि वह अभिषेक उर्फ अंशुल पिता मोहनलाल गोयल निवासी जानकी नगर से सस्ते दामों पर ऑयल खरीदता है। पुलिस ने अंशुल के कारखाने पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली ऑयल और खाली डब्बे बरामद किए। फिलहाल तीन आरोपियों के पास से करीब 6 लाख 50 हजार रुपये का माल जब्त हुआ है। वही आरोपियों से पूछताछ में कई और भी खुलासे होने की उम्मीद है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/indore/sale-of-fake-oil-in-indore-in-name-of-branded-castrol-companies-stf-caught-three/videoshow/83711331.cms>